

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest)

The Nagar Nigam Dehradun invites interested parties to submit their proposals for setting up of 100 TPD processing and recycling plant for construction and demolition waste in Nagar Nigam Dehradun area as per requirements available on website of Nagar Nigam Dehradun Website: www.nagarnigamdehradun.com. Detailed proposals may be submitted either by email: nagarnigam.ddn@gmail.com or in sealed envelope to the office of Senior veterinary officer, Room No. 12, Nagar Nigam Dehradun on or before 5:00 PM on date 15-12-2022

Based on the suggestion and inputs from the interested parties an appropriate selection process as per Uttarakhand procurement rule-2017 and Uttarakhand PPP policy 2019 will be initiated.

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।


कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:- 177 (v.n)

दिनांक:- 15/11/2022

प्रतिलिपि-

1. सम्पादक डि.एस.एल.ए.एम. 30/11/22 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में निर्धारित प्रतिशत छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सार्वजनिक सूचना नगर निगम, देहरादून की वेबसाईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

**REQUIREMENT OF EXPRESSION OF INTEREST FOR 100 TPD
PROCESSING AND RECYCLING PLANT FOR CONSTRUCTION AND
DEMOLITION WASTE, NAGAR NIGAM DEHRADUN**

Introduction

- About the project (Salient features).
- Aims and objectives.
- Brief scope of project.

Project Development

- Geology and location: location & connectivity to market, potential consumers.
- Legal frame work and permission requirements
- Land requirement.
- Waste assessment (required for processing and recycling plant for construction and demolition waste in Nagar Nigam Dehradun)
- Past experience, (lessons learnt, any project in past), Success or failure?

Technical Aspects

- Process, Design and Technology (Drawing must)
- Advantage of proposed technology over others required for processing and recycling plant for construction and demolition waste.
- Any other technical details including civil works.

Financial Aspects

- Financial plan.
- Financial and commercial assessment and market availability for recycled construction and demolition waste.

Any Other Points

- Social and environment impact and management.
- Risk assessment and mitigation plans.
- Any other points worth consideration.